

अफवाह नियंत्रण: A WORD ON COVID-19 FROM CHRISTA HYSON, MPH, PIO

6 मार्च, 2020

जब दुनिया में कॉरोनोवायरस या COVID-19 जैसा कोई नया वायरस उभरता है, तो कई सवाल उठते हैं।

COVID-19 के बारे में चिंतित होना सामान्य है, लेकिन अब तैयारी करने का समय है - घबराने की नहीं। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करने वाले मामलों में मिलकर काम करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है।



इसमें The Health Collaborative द्वारा प्रबंधित एक बहुत सक्रिय और चल रही आपातकालीन तैयारी का कार्यक्रम शामिल है।

The Health Collaborative (THC) हमारे Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition (DPC) के माध्यम से वर्तमान COVID-19 प्रकोप के दौरान हमारे क्षेत्र को सहायता देने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। COVID-19 के जवाब में DPC की प्राथमिक भूमिका सभी गठबंधन सदस्यों के बीच क्षेत्रीय समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। सदस्यों में Tristate क्षेत्र में अस्पताल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ, आपातकालीन प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य सामुदायिक साझेदार शामिल हैं।

अनिश्चितता के समय में, सोशल मीडिया अफवाहों और गलत सूचनाओं का एक मंच बन सकता है। THC ओहियो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ (Ohio Department of Health, ODH) और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) के साथ मिलकर काम करता है, जो COVID-19 के सबसे अप-टू-डेट विकास और सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में जानने के लिए है। हम COVID-19 के बारे में हानिकारक गलत सूचनाओं के बारे में जानते हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों रूप से फैली हुई हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लिए CDC और हमारे राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों जैसी जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

"हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि CDC और हमारे राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों की जानकारी के लिए आवश्यक स्रोतों पर भरोसा किया जाए।"

वायरस के लिए निगरानी या टेस्ट किए गए व्यक्तियों के वर्तमान डेटा और परिणामों के साथ [The Ohio Department of Health](#) अपनी COVID-19 वेबसाइट को प्रतिदिन 2 PM पर अपडेट करता है।

अभी, Greater Cincinnati के निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है रोकथाम के वे उपाय बनाए रखना जो वे किसी भी साँस के वाइरस में अपनाते हैं:

- कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार साफ करें।
- खांसी और छींक को अपनी कोहनी या ऊपरी बांह से कवर करें।
- बीमार होने पर घर में रहने से कीटाणु रोकें।

COVID-19 के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: <https://healthcollab.org/covid-19/>। मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया ईमेल द्वारा मुझसे संपर्क करें। The Health Collaborative सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रकोपों के समय में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेता है, और सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में, मैं अपने सदस्यों, भागीदारों और हितधारकों के लिए केवल सबसे विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

भवदीय,



Christa Hyson, MPH

Senior Manager, External Relations

Public Information Officer, Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition